

Date: November 02, 2020

**To,
BSE Limited**

**Corporate Relation Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001**

Subject: Public Notice pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR).

Scrip Code: 514394

Dear Sir,

This is to inform you that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR), public notice has been published in English daily and regional newspaper regarding the meeting of Board of Directors of the Company to be held on Wednesday, November 11, 2020 inter alia to consider and approve the un-audited financial results for the 02nd quarter and half year ended on September 30, 2020. Please find enclosed the newspaper cuttings of the same.

Please take the information in your records.

Thanking You

Yours.Faithfully

For ATLAS Jewellery India Limited



**(Chandan Mahapatra)
Company Secretary & CFO**

Encl: As Above

On asset front, there was an improvement with gross non-performing assets (NPAs) falling to 5.17 per cent of gross advances as of September 30, 2020, against 5.37 per cent a year ago.

crore). On consolidated basis, the bank's net profit was up over four-times at ₹4,882 crore in Q2 FY21 against Rs 1,131 crore in Q2 FY20. "The consolidated profit after tax in Q2 2020 had a one-time additional charge due to re-measurement of accumulated deferred tax assets at the revised marginal tax rate. The consolidated return on equity was 14.2 per cent in Q2 2021," it said in the filing. Income (consolidated) increased to Rs 39,321.42 crore during the quarter from Rs 37,424.78 crore a year earlier.

BPCL has planned its Bina refinery efficiency improvements at Mumbai refinery investment decision. The projects are not new owners in that is expected to after the current process ends, says a senior BPCL official.

early that working with her was going to be quite difficult and it may not be conducive to not quite comfortable working with me as well."

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property(ies) mortgaged/charged to **Indiabulls Housing Finance Ltd. [CIN: L65922DL2005PLC136029]** ("Secured Creditor"), the **constructive possession** of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" & "as is who is" basis.



पायनियर

नई दिल्ली, रविवार, 1 नवंबर, 2020


प्रा. के. दासन इस पर ध्यान दिया है, काम का कोई अनुभव नहीं है और...

उपचुनावों के बाद मंत्रिमंडल

भाषा: बंगलुरु

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस एडियुरप्पा ने शनिवार को कहा कि तीन नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार शीघ्र किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि आर आर नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार मुनिरत्न के जीतने के शीघ्र बाद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। एडियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा, विभिन्न कारणों को लेकर इसे (मंत्रिमंडल विस्तार को) कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। मैं इस पर पार्टी के नेताओं से चर्चा करने के लिए दिल्ली जाऊंगा। उन्होंने आर आर नगर में एक रोड शो से पहले कहा, उपचुनाव के नतीजों की घोषणा होने के शीघ्र बाद यह होगा। उन्होंने कहा, मैं उपचुनाव में उनके जीतने पर उन्हें (मुनिरत्न को) बेशक मंत्री बनाने जा रहे हूँ।



बंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एडियुरप्पा

आलोचना करते हुए कहा कि वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आर आर नगर उपचुनाव राज्य में तीनों प्रमुख पार्टियों— भाजपा, कांग्रेस और...

जामिनी 10

ATLAS

एटलस ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड
 सीआईएन : L74140DL1989PLC131289
 पंजी. कार्यालय : डीटीजे-719, 7वां तल, डीएलएफ टावर-बी, प्लॉट सं. 11,
 जासोला जिला, नई दिल्ली-110025
 फोन : 011-40541077 / 41041149, टेलीफैक्स : 011-40541077
 ई-मेल : info@atlascjewelleryindia.com, वेब : www.atlascjewelleryindia.com

सूचना

एतद्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अधिनियम, 2015 (एलबोडीआर) के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की पुनर्संयोजित बैठक अब बुधवार, 11 नवंबर, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ 30 सितंबर, 2020 को समाप्त दूसरी तिमाही हेतु कंपनी के अलेक्सापरीक्षित वित्तीय परिणामों तथा संगत अवधि हेतु सांख्यिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा।

उक्त सूचना तथा अलेक्सापरीक्षित वित्तीय परिणामों की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.atlascjewelleryindia.com पर भी उपलब्ध होगी तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हो सकती है। इस के अनुसरण में, कंपनी ने निर्णय किया है कि 'अंतरंगी व्यापार की रोकथाम आचार संहिता' के तहत बंदी की अवधि अर्थात् ट्रेडिंग विन्डो बंद रहने की अवधि शनिवार, 31 अक्टूबर, 2020 से आरंभ होगी तथा परिणामों की सार्वजनिक घोषणा के 48 घंटे बाद समाप्त होगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
 कृते एटलस ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड
 हस्ता./
 चन्दन महापात्रा
 (कंपनी सेक्रेटरी एवं सीएफओ)

तिथि : 31.10.2020
 स्थान : नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 23, यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

यहां बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलघन और ब्याज के नुगतन में चूक की है और के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण 2002 की धारा 13 (2) के अधीन एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पता पर प्रेषित की गई थी और इसलिए एतद्वारा उनको इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

प्रत्याभूत आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि / सूचना की तिथि तक	एनपीए तिथि
दुकान नंबर 218-डी, परिसर क्षेत्रफल 272 वर्ग फीट, प्लॉट नंबर 218-डी, परिसर क्षेत्रफल 272 वर्ग फीट, सुशांत लोकर-1, गुरुग्राम, हरियाणा	21/10/2020	21/10/2020

कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/से, तथा/अथवा उनके गारंटर्स (जैसा लागू है) को ना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आगे वित्तीय प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जा सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी